



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2011/माघ 4, 1932

No. 131]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2011/MAGHA 4, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

का.आ. 161(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1830(अ), तारीख 27 जुलाई, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 293.400 कि.मी. से 336.000 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 14 सितम्बर, 2010 को “साक्षी” और “दि हिन्दू”, दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 293.400 कि.मी. से 336.000 कि.मी. तक (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामियों-हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनन्तपुर	(1) पामिदी	पोगारूरू	86/2बी1	निजी	सरकारी शुष्क	0.75	पी. वेंकुकुमार पुत्र पी.यम. वेंकाटाचलपति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनन्तपुर	(1) पामिदी	पोगारूरु	80/ए1	निजी	सरकारी शुल्क	0.27	पी. महबूब पिरा पुत्र खाजा हुसैन
		2. पेद्दावादुगुर	गूटी अनन्तपुरम	36/बी1बी	निजी	सरकारी शुल्क	0.14	सी. बालप्पा पुत्र गोविंद
				36/सी 1	निजी	सरकारी शुल्क	0.01	1. बी. वेंकाटरामूडू पुत्र लक्ष्मन्ना 1. जी. नारायन स्मी पुत्र तिरुपालप्पा

[फा. सं. भारावा/पीआईयू-एटीपी/सी 12/एलए/2010]

एस. नरेंद्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2011

S.O. 161(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1830(E), dated the 27th July, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 7 on the stretch of land from km 293.400 to km 336.000 (Hyderabad-Bangalore Section) in District Anantpur in the State of Andhra Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification has been published in “Sakshi” and “The Hindu” both dated the 14th September, 2010, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land km 293.400 to km 336.000 (Hyderabad-Bangalore Section) of National Highway No. 7 in District Anantpur in the State of Andhra Pradesh

Sl. No.	Name of the district	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of persons interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Anantapur	1. Pamidi	Pogururu	86-2B1	Private	Government Dry	0.75	P. Venukumar S/o P. M. Venkatachalapathi
				80-A1	Private	Government Dry	0.27	P. Mahaboo Peera S/o Khaja Hussan
		2. Peddava-duguru	Gooty Anantapur	36-B1B	Private	Government Dry	0.14	C. Balappa S/o Govind
				36-C 1	Private	Government Dry	0.01	(1) B. Venkataramudu S/o Laxmanna (2) G. Narayanaswamy S/o Tirupalappa

[F. No. NHAI/PIU-ATP/C 12/LA/2010]

S. NARENDRA, Director